

थाना रौजा ने किया नकली सीमेंट फैक्ट्री का खुलासा,03 अभियुक्त गिरफ्तार,

भारी मात्रा में तैयार नकली सीमेंट के बोरी बरामद ।

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार धोखाधड़ी व जालसीजी की घटनाओं को रोकने व अपराधियों की गिरफ्तारी चलाये जा रहे अभियान में श्री संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर निर्देशन में थाना रौजा पुलिस को सफलता मिली ।

दिनांक 28.12.20 को थाना रौजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के बन्द पडी राईस मील के गोदाम पर औचक छापेमारी के दौरान नकली सीमेंट फैक्ट्री का भण्डाफोड करते हुये कारोबार में लिप्त गैंग के सदस्यों में से संचालक सहित तीन अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा 03 अभियुक्त भागने में सफल रहे । छापेमारी के दौरान मौके पर 315 बोरे नकली सीमेंट एसीसी गोल्ड कम्पनी तथा नकली सीमेंट कोनार्क ब्रान्ड कट एण्ड टोन (रिजेक्टेड) – 52 बोरे तथा 310 बोरे फ्लाई एस एवं चार बण्डल में विभिन्न सीमेंट कम्पनियों के नए प्लास्टिक रिजेक्टेड बैग स्क्रेप के 3900बोरे, इलेक्ट्रानिक तराजू व चार बड़े बड़े साइज के कीप व उपकरण बरामद किया गया । मौके पर ही खड़े ट्रक में लदी 335 बोरी नकली सीमेंट तथा ट्राली में लदी 15 बोरी नकली सीमेंट बरामद किया गया ।

अभियुक्तों से कड़ी पूछताछ के दौरान पाया गया कि नकली सीमेंट तैयार कर जनपद के अन्दर विभिन्न दुकानों पर तथा लखीमपुर खीरी के मैंगलगंज , गोला , मोहम्मदी आदि स्थानों पर दुकानों पर सप्लाई की जाती थी । मुख्य अभियुक्त के भाई अंकित शुक्ला की दुकान थाना मैंगलगंज में स्थित है जहां पर नकली सीमेंट की बिक्री की जाती थी। पूछताछ से पाया गया कि एजेन्ट के माध्यम से नकली सीमेंट की सप्लाई बखूबी की जाती थी। 03 अभियुक्तों को विभिन्न कम्पनियों के प्लास्टिक रिजेक्टेड बैग स्क्रेप में नकली सीमेंट तैयार करते समय मय नकली सीमेंट के गिरफ्तार किया गया जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 728/20 धारा 420,467,468,471,483,34 भा0द0वि0 – पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गणों को मा0 न्यायालय पेश किया जायेगा । फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर रवाना की गयी हैं ।

बरामदगी माल का विवरण-

1. नकली सीमेंट परफेक्ट कम्पनी 350 बोरी
2. नकली सीमेंट एसीसी गोल्ड कम्पनी की, 315 बोरी
3. नकली सीमेंट कोनार्क ब्रान्ड की कट एण्ड टोन (रिजेक्टेड) -,52 बोरी
4. चार बण्डल में विभिन्न सीमेंट कम्पनियों के नए प्लास्टिक रिजेक्टेड बैग स्क्रेप /बोरे:- 3900
5. राख/ फ्लाई एस 310 बोरी
6. टीन के कीप - 4 अदद
7. बेल्ट - 3 अदद
8. चलना जाली - 2 अदद
9. इलेक्ट्रानिक तराजू - 1 अदद
7. एक अदद ट्रक नं0 UP 31 AT 1817
8. एक अदद ट्रैक्टर स्वराज नं0 UP30 AB 4867 मय ट्राली
9. संचालक की एक अदद कार टाटा टियागो नं0 UP31 BE 7793
10. एक अदद मोटर साइकिल हीरो कम्पनी नं0 UP27 AM 2077
11. फर्जी दस्तावेज - दो अदद प्रपत्र टैक्स इनवाइस, फर्जी आधार कार्ड की छायाप्रति, एक सादा स्टाम्प पेपर , एक आधार कार्ड मूल , एक ड्राइविंग लाइसेंस, , दो अदद बिल्टी
12. तीन अदद मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. संचालक अभियुक्त अंचल शुक्ला पुत्र रमाकान्त शुक्ला निवासी ग्राम सेमरा नारायण थाना मेगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी
2. एजेन्ट अभियुक्त दीपेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र श्रीराम शर्मा निवासी ग्राम भिलावा थान पुवायां जनपद शाहजहाँपुर
3. एजेन्ट अभियुक्त अजय शर्मा पुत्र स्व० राधेश्याम शर्मा निवासी पिपरिया थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर हाल निवासी गढी मो० पश्चिमी दिक्षिताना कस्बा व थाना गोला जनपद लखीमपुर खीरी

भागे हुए अभियुक्तगण-

1. इमरान निवासी घण्टाघर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
2. अंकित शुक्ला पुत्र रमाकान्त शुक्ला निवासी ग्राम सेमरा नारायणपुर थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी
3. नईम निवासी ददरू थाना से०म०द० जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. व०उ०नि० दिलीप कुमार
2. उ०नि०श्री संजय कुमार
3. उ०नि०श्री राजेश बाबू मिश्रा
4. उ०नि० श्री किरनपाल सिंह
5. हे०का 0333 अनूप मिश्रा
6. का 1808 यतेन्द्र कुमार
7. का 2236 रोबिन मलिक
8. का० 1452 महेन्द्र सिंह
9. का० 411 आजाद निषाद
10. का० 913 महेश कुमार
11. का० 2321 अमित कुमार

